

# विद्याभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा -षष्ठ

दिनांक -18-07-2020

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज संख्यावाचक विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे (पुनः अध्ययन )लिखकर याद करेंगे।

## संख्यावाचक विशेषण

### संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा

वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं।

**दूसरे शब्दों में-** वह विशेषण, जो अपने विशेष्यो की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए, 'संख्यावाचक विशेषण' कहलाता है।

### जैसे-

- पाँच घोड़े दौड़ते हैं।
- सात विद्यार्थी पढ़ते हैं।

इन वाक्यों में 'पाँच' और 'सात' संख्यावाचक विशेषण हैं, क्योंकि इनसे 'घोड़े' और 'विद्यार्थी' की संख्या संबंधी विशेषता का ज्ञान होता है।

### संख्यावाचक विशेषण के भेद

संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं-

1. निश्चित संख्यावाचक विशेषण

## 2. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण

**निश्चित संख्यावाचक विशेषण:** वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं।

**सरल शब्दों में-** जिससे किसी निश्चित संख्या का ज्ञान हो, वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है।

**जैसे-** एक, दो आठ, चौगुना, सातवाँ आदि।

उदाहरण-

- मेरी कक्षा में चालीस छात्र हैं।
- कमरे में एक पंखा घूम रहा है।
- डाल पर दो चिड़ियाँ बैठी हैं।
- प्रार्थना-सभा में सौ लोग उपस्थित थे।

इन सभी वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। जैसे- कक्षा में कितने छात्र हैं?- चालीस, कमरे में कितने पंखे घूम रहे हैं?- एक, डाल पर कितनी चिड़ियाँ बैठी हैं?- दो तथा प्रार्थना-सभा में कितने लोग उपस्थित थे?- सौ।

**अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण:** वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न कराते हों, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं।

**दूसरे शब्दों में-** जिस विशेषण से संख्या निश्चित रूप से नहीं जानी जा सके, वह अनिश्चित विशेषण है।

**जैसे-** कई, कुछ, सब, थोड़ा, सैकड़ों, अरबों आदि।

उदाहरण-

- बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए।

- कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे।
- कुछ फल खाकर ही मेरी भूख मिट गई।
- कुछ देर बाद हम चले जाएँगे।

इन सभी वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है? जैसे- कितने लोग बेहोश हो गए?- कुछ, कितने छात्र उपस्थित थे?- कम, कितने फल खाकर भूख मिट गई?- कुछ, कितनी देर बाद हम चले जाएँगे?- कुछ।